



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़ 1934 (श०)
(सं० पटना 320) पटना, बुधवार, 11 जुलाई 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना
10 जुलाई 2012

सं० नि०प्रा०/नि० 1-05/2012/खंड-9087—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14(क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273, दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा 1 (एक) प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और, चूँकि प्रत्येक प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में 1 (एक) अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी समिति के 12 (बारह) सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है, जिसमें से 2 (दो) स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि के सदस्यों के लिए, 2 (दो) स्थान महिलाओं के लिए, 1 (एक) स्थान पिछड़ा वर्ग कोटि के सदस्यों के लिए एवं 1 (एक) स्थान अति पिछड़ा वर्ग कोटि सदस्यों के लिए आरक्षित है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट-2 में अंकित कुल 2 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों के अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 02.08.2012 (गुरुवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 6590, दिनांक 16.05.2012 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ-तिथि 31.03.2012 निर्धारित की गयी है।

संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 11.07.2012 (बुधवार) को संलग्न प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-3) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक होगा। मतगणना यथास्थिति दिनांक 02.08.2012 (गुरुवार) को मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 3-4 बजे से शुरू की जायेगी।

आदेश से,
एन0 एस0 माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन, 2012

निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	-	11.07.2012 (बुधवार)
(ii)	नामांकन की तिथि	-	21.07.2012 (शनिवार)
(iii)	संवीक्षा की तिथि	-	23.07.2012 (सोमवार)
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	-	24.07.2012 (मंगलवार)
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	-	02.08.2012 (गुरुवार)
(vi)	मतगणना	-	02.08.2012 (अपराह्न 3-4 बजे से)

परिशिष्ट- 2

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन

जिला - भागलपुर (कुल- 1 दु0उ0स0स0)

क्रमांक	प्रखंड	दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का नाम
1.	रंगड़ा	1. बनिया, ग्राम-बनिया, पोस्ट-भवानीपुर

परिशिष्ट-3

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति निर्वाचन

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंड.....के प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, निबंधन संख्या....., पताके अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
अध्यक्ष	01 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	12
• एस.सी./एस.टी कोटि	02 पद (आरक्षित)
• महिला कोटि	02 पद (आरक्षित)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• अति पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• सामान्य कोटि	06 पद (अनारक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक
.....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी।
(स्थान का नाम)

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न 2 बजे के पूर्व तकपर
(स्थान का नाम)

दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद विधिमान्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 07 बजे पूर्वाह्न से 02 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र (पुरा पता) में अवस्थित होगा।

(Viii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 320-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>